



प्रेस नोट

दिनांक- 19.09.2022

थाना सिकन्दरा पुलिस ने ई-कॉम एक्सप्रेस डिलीवरी ब्वाय से हुई लूट की घटना का पर्दाफाश कर 01 नफर अभियुक्त को घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार !

पुलिस अधीक्षक महोदया कानपुर देहात द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण व वांछित/इनामियाँ अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान व अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी सिकन्दरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ई-कॉम एक्सप्रेस डिलीवरी ब्वाय से लूट करने वाले शातिर लुटेरे के सहयोगी को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार ।

विदित हो कि दिनांक 31.07.2022 को वादी श्री शिवम पाल पुत्र रुप सिंह पाल निवासी ग्राम पलनापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ने तहरीर दी कि दिनांक 31.07.2022 को आनलाइन बुकिंग का सामान डिलीवर करने के लिये कस्टमर द्वारा बताये गये स्थान पर गया तो कस्टमर द्वारा बिना पैसे दिये अपना आनलाइन बुक किया गया सामान जबरन छीन कर भाग गया। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 150/22 धारा 420 भा0द0वि0 बनाम मो0नं0 6390706944 कस्टमर सुरेश कुमार निवासी सिकन्दरा कानपुर देहात पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में धारा 392 भा0द0वि0 की बढोत्तरी हुयी व साथ ही साथ 02 नफर अभियुक्त 1.कन्हैया पुत्र राकेश तिवासी निवासी ग्राम सधुवापुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात 2. हिमांशु दुबे पुत्र पंकज दुबे निवासी ग्राम कसोलर थाना मंगलपुर कानपुर देहात प्रकाश में आये जिनके द्वारा उक्त लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। आज दिनांक 19.09.2022 को मुखबिर खास की सूचना पर क्षेत्राधिकारी सिकन्दरा के कुशल नेतृत्व में सिकन्दरा पुलिस द्वारा प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त हिमांशु दुबे पुत्र पंकज दुबे निवासी ग्राम कसोलर थाना मंगलपुर कानपुर देहात को लूट की घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल अपाचे सफेद रंग नं0 UP 32 HV 0953 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.हिमांशु दुबे पुत्र पंकज दुबे निवासी ग्राम कसोलर थाना मंगलपुर कानपुर देहात

बरामदगी-

1.लूट की घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल नं0 UP 32 HV 0953

अभियुक्त सुधांशु का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 150/22 धारा 392 भा0द0वि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री विजय सिंह थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री मोहित वर्मा थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।
3. का0 891 राजू सिंह थाना सिकन्दरा कानपुर देहात।

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**